



NEERAJ®

M.H.D. - 15

हिन्दी उपन्यास-2

**Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers**

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: Dr. Shanti Swaroop Gupt, M.A. (Hindi), Ph.D.



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 380/-

Content

हिन्दी उपन्यास—2

Question Paper—June-2024 (Solved)	1-3
Question Paper—December-2023 (Solved)	1-3
Question Paper—June-2023 (Solved)	1-3
Question Paper—June-2023 (Solved)	1-3
Question Paper—December-2022 (Solved)	1-2
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved).....	1-4
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved).....	1-3
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved)	1-4
Question Paper—December, 2019 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2019 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2018 (Solved)	1-3

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
1.	यशपाल का उपन्यास साहित्य और 'झूठा सच'	1
2.	देश का विभाजन और 'झूठा सच'	20
3.	देश का भविष्य और 'झूठा सच'	27
4.	औपन्यासिक महाकाव्य के रूप में 'झूठा सच'	42
5.	कृष्णा सोबती का कथा—साहित्य और 'जिन्दगीनामा'	70
6.	'जिन्दगीनामा': उपन्यास की अंतर्वस्तु और कथा—शिल्प	82

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
7.	‘जिन्दगीनामा’ : प्रमुख पात्र एवं चरित्र-चित्रण	87
8.	‘जिन्दगीनामा’ : परिवेश और भाषा	110
9.	धर्मवीर भारती का कथा साहित्य और ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’	126
10.	औपन्यासिक शिल्प : ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’	133
11.	‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’ : चरित्र दृष्टि	147
12.	‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’ : भारती की लेखकीय दृष्टि	159
13.	‘राग दरबारी’ : श्रीलाल शुक्ल	184

■ ■

**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**
www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

हिन्दी उपन्यास-2

M.H.D.-15

समय : 2 घण्टे।

/ अधिकतम अंक : 50

नोट : प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1. निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए—

(क) आपने तो अज्ञान दूर करने के पहले ही क्रांति शुरू कर दी है। शासन की शक्ति से लोगों को कम्युनिज्म समझाइयेगा? लेकिन लोग आपको शासन-शक्ति लेने नहीं देंगे। जिस जनता की भलाई के लिए कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, वही आपका विरोध करेगी। वे आपका नहीं, गांधी जी के वारिसों का साथ देंगे। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को विद्रोह की बात ज़ंचती थी, अपनी सरकार के खिलाफ बगावत उन्हें नहीं ज़ंचेगी। आपको वैज्ञानिक रास्ते पर लेना चाहिए था। कांग्रेस को लोगों ने कितने वरस में पहुँचाना? आप एक ही झटके में सब कुछ कर लेना चाहते हैं।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-4, पृष्ठ-63, ‘व्याख्या 10’

(ख) जब नौशेरवाँ का आखिरी वक्त आया तब उसने अपने बेटे हुरमुज से कहा, ‘बेटा, दिल से फकीरों-दरवेशों की हिफाजत कर। अपने आराम की फिक्र न रख। कोई भी अकलमंद यह पसंद न करेगा कि चरवाहा पड़ा सोता हो और भेड़िया उसके गोल में रहे। होशियारी से दरवेशों-मुहताजों का ख्याला रख। इसलिए कि रियाया की बदौलत ही बादशाह ताजदार होता है। रियाया जड़ की तरह है और बादशाह दरखत की तरह और दरखत जड़ से ही मजबूत होता है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, जहाँ तक बन सके, रियाया का दिल मत दुखाना और अगर तू ऐसा करेगा तो अपनी जड़ खोदेगा।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-8, पृष्ठ-124-125, ‘व्याख्या 8’

(ग) बस, मणिक मुला भी तुहारा ध्यान उस अथाह पानी की ओर दिला रहे हैं जहाँ मौत है, अंधेरा है, कीचड़ है, गन्दगी है। या तो दूसरा रास्ता बनाओ नहीं तो डूब जाओ। लोकिन आधी इंच ऊपर जमी बरफ कुछ काम न देगी। एक ओर नये लोगों का यह रोमानी दृष्टिकोण, यह भावुकता, दूसरी ओर बड़ों का यह थोथा आदर्श और झूठी मनोवैज्ञानिक मर्यादा सिर्फ आधी इंच बरफ है, जिसने पानी खूँखार गहराई को छिपा रखा है।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-12, पृष्ठ-171, ‘व्याख्या 5’

(घ) हिन्दुस्तान में पढ़े-लिखे लोग कभी-कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। उसका नाम ‘क्राइसिस ऑफ कांशस’ है। कुछ डॉक्टर उसी में ‘क्राइसिस ऑफ फेथ’ नाम की एक दूसरी बीमारी भी बारीकी से ढूँढ़ निकालते हैं। यह बीमारी पढ़े-लिखे लोगों में आमतौर से उन्हीं को सताती है जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं और जो वास्तव में बुद्धि के सहारे नहीं, बल्कि आहार-निवार-भय-मैथुन के सहारे जीवित रहते हैं (क्योंकि अकेली बुद्धि के सहारे जीवन एक नामुमकिन बात है)।

उत्तर—संदर्भ—प्रस्तुत गद्यांश ‘रायदरबारी’ उपन्यास से लिया गया है। इसके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। लेखक ने इसमें पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी वर्ग पर आवश्यकता से अधिक सचेत होकर स्वयं को अधिक बुद्धिमान मानने और दूसरों को उलझा देने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है।

व्याख्या—लेखक के अनुसार भारत से बुद्धिजीवी एवं शिक्षित वर्ग पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है, जिस कारण वे स्वयं को आम लोगों से अधिक बुद्धिमान समझते हैं और क्राइसिस ऑफ कांशस अर्थात् बाल की खाल निकालने की बीमारी से ग्रसित हैं और इनमें भी डॉक्टर वर्ग क्राइसिस ऑफ फेथ नामक प्रवृत्ति से ग्रसित हो चुके हैं, जिसमें वे लकीर के फकीर बनकर इलाज से अधिक अपनी विचारधारा को दूसरों पर थोपते हैं। ये लोग भौतिकता एवं इंद्रिय सुख को परम मानते हैं, जिस कारण संकुचित मानसिकता से स्वयं को धेर लेते हैं, जो अंततः समाज के लिए हानिकारक है।

विशेष-1. भाषा सरल किंतु व्यंग्यपूर्ण है।

2. बुद्धिजीवी वर्ग की संकुचित मानसिकता एवं भौतिकता को जीवन का पर्याय मान पर व्यंग्य किया है।

प्रश्न 2. ‘झूठा सच’ उपन्यास के आधार पर जयदेव पुरी की चरित्रगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-3, पृष्ठ-33, प्रश्न 4

प्रश्न 3. परिवेश-चित्रण की दृष्टि से ‘जिन्दगीनामा’ का विवेचन कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-7, पृष्ठ-101, प्रश्न 8

प्रश्न 4. ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’ उपन्यास की शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

हिन्दी उपन्यास-2

M.H.D.-15

समय : 2 घण्टे।

/ अधिकतम अंक : 50

नोट : प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1. निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं दो की संदर्भ और प्रसंग-सहित व्याख्या कीजिए—

(क) स्त्रियों के जीवन में लज्जा का उतार-चढ़ाव दिन के पहरों में ताप की भाँति होता है। बचपन में लाज की अनुभूति नहीं रहती। जीवन के दूसरे पहर में जब वे अपने शरीर में नारीत्व को पहचानने लगती हैं और जान जाती हैं कि उनके जीवन की परिणति उनकी आकर्षक शक्ति में है तो वे आकर्षण में प्रबल माध्यम लाज को बढ़ाने लगती हैं। यौवन में विवाह से पूर्ण लाज और संकोच की यह अनुभूति और उसका प्रदर्शन भी नवयुवति में अत्यन्त उल्टा होता है।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-4, पृष्ठ-54, व्याख्या-2

(ख) कुदरते-खुदाबंदी का यकीन दिलाने के लिए मूसा ने बड़े-बड़े मोजजे दिखाए। आसमानों को कैसा बुलंद और बाआब बनाया। सूरज के जरिए रात और दिन की तारीकी और रोशनी का इंतजाम किया। सतह जमीन को बिछाकर इस पर पहाड़ कायम किए। आसमान से पानी बरसाया और जमीन से सब्जा उगाया। सतह जमीन की अगर एक वसीह फर्श से मिसाल दी जाए तो इस पर पहाड़ों को ऐसा समझा जाएगा कि गोया फर्श को अपनी जगह रखने के लिए मेखे गाड़ दी हों।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-8, पृष्ठ-116, व्याख्या-1

(ग) जमुना की जीवन-गाथा समाप्त हो चुकी थी और हम लोगों को उनके जीवन का ऐसा सुखद समाधान देखकर बहुत सन्नोष हुआ। ऐसा लगा कि जैसे सभी रसों की परिणति शान्त या निर्वेद में होती है, वैसे ही उस अभागिन के जीवन के सारे संघर्ष और पीड़ा की परिणति मातृत्व से प्लावित, शांत, निष्कम्प दीपशिखा के समान प्रकाशमान, पवित्र, निष्कलंक वैधव्य में हुई।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-12, पृष्ठ-170, व्याख्या-4

(घ) वेदान्त हमारी परम्परा है और चूँकि गुटबंदी का अर्थ वेदान्त से खींचा जा सकता है, इसलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है और दोनों हमारी सांस्कृतिक परम्पराएँ हैं। आजादी मिलने के बाद हमने अपनी बहुत-सी सांस्कृतिक परम्पराओं को फिर से खोदकर निकाला है। तभी हम हवाई

जहाज से यूरोप जाते हैं, पर यात्रा का प्रोग्राम ज्योतिषी से बनवाते हैं : फॉरेन एक्सचेंज और इन्कम टैक्स की दिक्कतें, दूर करने के लिए बाबाओं का आशीर्वाद लेते हैं।

उत्तर—संदर्भ—प्रस्तुत गद्यांश श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास ‘राग दरबारी’ से उद्धृत है। शिवपालगंज के छांगमल इन्टर कॉलेज के अध्यापकों में गुटबंदी थी। अध्यापकगण दो दलों में विभक्त थे। एक के नेता थे प्रिसिपल तथा दूसरे दल की अगुवाई कर रहे थे खना मास्टर। इसी गुटबंदी को लेकर उपन्यासकार वर्तमान भारत में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त इस रोग पर व्यंग्य करता हुआ, उसकी दार्शनिक सिद्धांत का रूप देता हुआ, उसकी तुलना वेदान्त के अद्वित दर्शन से करता है।

व्याख्या—अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए लेखन कहता है कि गुटबंदी का मूल हमारी परंपराओं में है, वह वेदांत को गुटबंदी से जोड़ता है। वह आगे कहता है कि आधुनिक युग के दंभ में हमने अपनी अनेक परंपराओं को छोड़ दिया था, किंतु आजादी के बाद अनेक परंपराओं को फिर से जीवित किया गया है। यूरोप जाने के लिए यात्रा का कार्यक्रम ज्योतिषी से निकलवाना हमारी परंपरा और आधुनिकता की गुटबंदी का प्रतीक है।

विशेष-1. हिन्दी के कथाकारों पर विशेषतः जैनेन्द्र जी पर कटाक्ष, जो कथा के बीच-बीच में दर्शन का तत्त्व-चिंतन का डोज पिलाते हैं।

2. आध्यात्मिक एकीकरण या लय की बात ‘प्रसाद’ ने ‘आंसू’ में कही है और वह बताते हैं कि ब्रह्म भी जीव से एक होने के लिए उतना ही आतुर रहता है, जितना जीव ब्रह्म से एक होने के लिए व्याकुल।

प्रश्न 2. देश विभाजन पर लिखे गए हिन्दी के उपन्यासों के आलोक में ‘झूठा-सच’ उपन्यास के महत्व की चर्चा कीजिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-2, पृष्ठ-22, प्रश्न 2

प्रश्न 3. ‘जिन्दगीनामा’ उपन्यास के शिल्पगत वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए।

उत्तर—संदर्भ—देखें अध्याय-7, पृष्ठ-105, प्रश्न 9

इसे भी देखें—‘जिन्दगीनामा’ के कथा-शिल्प की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

हिन्दी उपन्यास-2

यशपाल का उपन्यास साहित्य और 'झूठा सच'

1

प्रश्न 1. यशपाल के जीवन, व्यक्तित्व तथा कृतित्व का सक्षिप्त परिचय दीजिये।

उत्तर-वस्तुतः रचनाकार की संवेदना के गठन में उसके जीवनानुभव की व्यापक भूमिका होती है। यशपाल के जीवनानुभव का क्षेत्र समृद्ध और वैविध्य से भरा हुआ है। भारत में अंग्रेज-विरोधी क्रांतिकारी आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, उसके छाया उनके संपूर्ण लेखन और चितन में दृष्टिगत होती है। भारत-विभाजन का दर्द उन्होंने अनुभव किया था, इस पीड़ी की गंभीर अभिव्यक्ति उनके 'झूठा सच' उपन्यास में मिलती है।

यशपाल का जन्म 3 दिसम्बर, सन् 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनके पिता का मूल निवास स्थान कांगड़ा था। उनकी आर्थिक स्थिति अति सामान्य थी। यशपाल के पिता और चाचा के बीच बढ़ते कलह के कारण इनके घर की आर्थिक स्थिति और भी अधिक खराब हो गई। आर्थिक विपन्नता से लेखक के मन पर गहरा आघात लगा। वे इसे जीवन भर नहीं भूल पाए। उनके साहित्य में हमें ऐसे अनेक पात्र मिलेंगे, जो अभाव और मजबूरी के बीच जीने को विवश हैं। यशपाल की माता जी बदहाली की स्थिति में कांगड़ा छोड़कर पंजाब आ गई। उनके सगे-संबंधी आर्य समाज के आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसलिए फिरोजपुर की एक आर्य कन्या पाठशाला में अध्यापिका के रूप में नियुक्ति में कोई उन्हें विशेष परेशानी नहीं हुई। यशपाल ने सातवीं कक्षा तक की शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी से प्राप्त की। उसके बाद की शिक्षा डी.ए.वी. लाहौर तथा मनोहरलाल हाई स्कूल में प्राप्त की। यहीं से वे सन् 1921 में प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसी समय हाथ से लिखी पत्रिका में उन्होंने 'अँगूठी' नामक अपनी प्रथम कहानी लिखी। असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए विदेशी कपड़ों की होली जलाई।

मैट्रिक की परीक्षा पास करके वे पंजाब नेशनल कॉलेज के विद्यार्थी बने। इस समय देश में असहयोग आंदोलन छिड़ा हुआ था। विदेशी शासन के विरोध में आंदोलन उग्र रूप धारण करता जा रहा था। इसी बीच चौरा-चौरी का कांड हुआ। गाँधी जी ने आंदोलन को स्थिगित कर दिया। आंदोलन स्थिगित होने से देश के नवयुवकों में बेहद निराशा व्याप्त हुई। जिन छात्रों ने आंदोलन की सफलता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, वे असंतुष्ट थे। उन्हीं में से कुछ ने सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। इन छात्रों में यशपाल भी थे। नेशनल कॉलेज में उनका संपर्क सुखरेव, भगतसिंह तथा चन्द्रशेखर आजाद जैसे सशस्त्र क्रांतिकारियों से हुआ। सामूहिक सशस्त्र क्रांति द्वारा अपने देश से विदेशी सत्ता का उन्मूलन करना इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य था। सैण्डर्स की हत्या, लाहौर बम कांड आदि में यशपाल की परोक्ष भूमिका थी। 1928 ई. में वे लॉर्ड इरविन की स्पेशल ट्रेन के नीचे विस्फोट का आयोजन करने तथा दिल्ली और रोहतक में बम निर्माण के काम में सक्रिय रहे। सन् 1931 में 'हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र सेना' के सेनापति 'आजाद' के शहीद होने के उपरान्त आप इस संगठन के सेनापति नियुक्त हुए। 1932 ई. में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में इस्लामाबाद गिरफ्तार हुए। 1938 ई. में जेल से रिहा होकर वे लखनऊ में रहते हुए साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए।

जेल से मुक्त होने के बाद उन्होंने माता की बची-बचायी पूँजी तीन सौ रुपयों से 'विल्लव' पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 1940 ई. में क्रांतिकारी विचारों से ओत-प्रोत लेखों के कारण वे फिर गिरफ्तार कर लिए गए। बाध्य होकर उन्हें 'विल्लव' का संपादन बंद कर देना पड़ा। उन्होंने स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन करते हुए कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण लिखे। स्वातंत्र्योत्तर

2 / NEERAJ : हिन्दी उपन्यास-2

पीढ़ी के रचनाकारों में विचारधारा और लेखन के स्तर पर उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। जीवन के अंतिम समय में भी क्षीण होती आँख की रोशनी के बीच वे रचनारत रहे। 1976ई. में उनका निधन हुआ।

यशपाल के विषय में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है—“वे सीधे किताबों और विद्यालयों के भीतर से साहित्य के क्षेत्र में नहीं उतरे, बल्कि उन्होंने जीवन के बहुत कड़े-मीठे अनुभव हासिल किए हैं। उनकी लेखनी में जो पारदर्शिता, विविधता देखने में आती है, वह इसी जीवन की देन है।” सामंती समाज के विषट्टन और पूँजीवादी व्यवस्था के आगमन के बीच किस प्रकार का दबाव मानवीय संबंधों पर पड़ रहा था, उसकी पहचान यशपाल के साहित्य में गहरी है। लेकिन इस कारण कहाँ-कहाँ उनके विश्लेषण जड़ और यांत्रिक हो गए हैं। सिद्धांतों को अत्यधिक महत्व देने के कारण वे मानवीय जीवन के जटिल यथार्थ की अनदेखी कर जाते हैं। यह उनके साहित्य की बड़ी सीमा है। लेकिन स्थितियों की जटिलता का विश्लेषण करने की उनकी क्षमता अचूक और धारदार है।

यशपाल प्रेमचंद्रेतर पीढ़ी के प्रतिनिधि कथाकार हैं। कहानी और उपन्यास में उन्होंने अपना विशिष्ट योगदान दिया है। ‘पिंजरे की उड़ान’ (1939), ‘वो दुनिया’ (1942) ‘ज्ञानदान’ (1943), ‘तर्क का तूफान’ (1943) ‘भस्मावृत चिंगारी’ (1949), ‘फूलों का कुर्ता’ (1949), ‘धर्मयुद्ध’ (1950), ‘चित्र का शीर्षक’ (1951), ‘तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ’ (1954), ‘उत्तमी की माँ’ (1953), ‘सच बोलने की भूल’, (1962), ‘खच्चर और आदमी’ (1967) यशपाल के प्रतिनिधि कहानी संग्रह हैं। उनकी कहानी में शोषित और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति है। उनकी मान्यता है कि मनुष्य रूढ़ि, अंधविश्वास, अज्ञान और आर्थिक-सामाजिक दबाव के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते हैं। यशपाल ने प्रायः उहोंने समस्याओं का चुनाव किया है, जो प्रगतिशील जीवन दृष्टि की प्रेरणा देने में सक्षम हैं। उन्होंने पाठक को परांपरागत रूढ़ियों से अलग करते हुए जीवन की कमजोरियों और मजबूरियों के वास्तविक संदर्भों से परिचित कराया। ‘पहाड़ की स्मृति’ की पहाड़िन, ‘धर्मयुद्ध’ के कलर्क कन्हैयालाल, ‘आतिथ्य’ के रामशरण, ‘अपनी-अपनी जिम्मेदारी’ की साधारण मध्यवर्गीय कन्या प्रधा, ‘हलाल का टुकड़ा’ के देशप्रेमी रावत और ‘तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ’ की क्षयरोग ग्रस्त माया और न जाने कितने ही ऐसे चरित्र यशपाल ने पेश किए, जो उनकी रचनात्मक कल्पना के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। यशपाल के पात्रों में निजी जीवन की उलझनें बहुत ही कम मिलती हैं। उनमें एक प्रकार की सपाटता है। कहानी के स्थापत्य के मामले में यशपाल सतर्क कथाकार हैं। उनकी कहानियों का ढाँचा सुनिर्मित है। भाव, विचार और कहानियों के कथानक प्रायः इकहरे होते हैं, लेकिन मार्मिकता से भरे हुए होते हैं।

यशपाल का मुख्य व्यसन था—अध्ययन, चिंतन और लेखन। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में क्रांतिकारी नेताओं, मुक्ति संग्रामों एवं क्रांतिकारियों की गाथाएँ पढ़ी थीं, जिनका प्रभाव उनकी रचनाओं पर दृष्टिगत होता है। उपन्यास-साहित्य का अध्ययन भी उनका शौक था। हिन्दी और बंगला की रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने विदेशी कथा-साहित्य का भी पारायण किया है—कुछ अनुवाद रूप में, तो कुछ मूल में। उन्होंने इयूमा, ह्यूगो और अनातोले फ्रांस को पढ़ा और उनके कथानक-शिल्प उनसे प्रभावित भी हैं। आतकवादी पात्रों के अंकन में वह अपनी तुलना तुर्गनेव से करते हैं। दादा कामरेड और देशप्रोहो में मजदूर-आंदोलन और हड़ताल के चित्रों को पढ़कर गोर्की के ‘मदर’ की याद आ जाना स्वाभाविक है। अपने कारा-प्रवास में उन्होंने कई विदेशी भाषाएँ—फ्रेंच, इटालियन और रशियन सीखीं और इन भाषाओं के लेखकों की कुछ पुस्तकें मूल-भाषाओं में पढ़ीं। अनातोले फ्रांस की रचना ‘ताइस’ मूल फ्रांसीसी भाषा में ही पढ़ी। अपने इस स्वाध्याय में उन्होंने अनेक कृतियों के गुणों को भी आत्मसात् किया। बर्नार्ड शॉ, इब्सन रसेल, हार्डी, गाल्स्वर्दी, अनातोले फ्रांस, विक्टर ह्यूगो, मोपासां, टालस्टाय, चेखोव और तुर्गनेव उनके प्रिय लेखक रहे हैं।

मार्क्सवादी दर्शन यशपाल की जीवन-दृष्टि का महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने मार्क्सवाद के आर्थिक पक्ष को ही नहीं, उसके राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण को भी अपनाया है। इसीलिए उन्होंने एक ओर पूँजीवादी व्यवस्था की कटु आलोचना की है, तो दूसरी ओर उत्पीड़ित वर्म का क्रान्ति के लिए आह्वान किया है। वह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम का फल पाने का समान अवसर होना चाहिए, उसे समाज के शासन और व्यवस्था में भाग लेकर आत्मनिर्णय का भी अधिकार हो। उन्होंने समाजवाद के इसी आदर्श को ‘दादा कामरेड’ और ‘देशप्रोहो’ में यथास्थान व्यक्त किया है और मजदूर-संगठन तथा मजदूर-क्रांति पर बल दिया है। आरम्भ में उनका विचार था कि समाजवादी प्रणाली की स्थापना केवल क्रान्ति-मार्ग से हो सकती है, पर कदाचित् क्यूबा के उदाहरण से वह यह मानने लगे हैं कि उसकी स्थापना जनतन्त्रात्मक उपायों से भी हो सकती है। ‘झूठा सच’ के ये शब्द यशपाल की इसी परिवर्तित धारणा की ओर संकेत करते हैं, “गिल, अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है। जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है।”

यशपाल का धार्मिक दृष्टिकोण भी मार्क्स के अनुसार है। वह मारिश के द्वारा पूर्वजन्म और कर्मफल में विश्वास रखने वालों को निर्बल बताते हैं। उन्होंने स्वयं भी कहा है, “धर्म संबंधी प्राचीन धारणाएँ आज बेमौसमी बीज की तरह हमारे सामाजिक जीवन के खेत में केवल कूड़ा-कबाड़ पैदा कर रही हैं।” वह नैतिकता का

यशपाल का उपन्यास साहित्य और 'झूठा सच' / 3

अध्यात्म और परलोक से कोई संबंध नहीं मानते। नैतिकता इस संसार के पारस्परिक व्यवहारों की मान्यता होती है। समाज में सांसारिक सफलता और व्यवस्था की चिन्ता ही नैतिकता को विकसित कर सकती है। इसीलिए नैतिकता नितान्त मानुषिक और सांसारिक नियम है।

प्रारम्भ में यशपाल प्रगतिवादी आनंदोलन के केन्द्र में नहीं थे, धीरे-धीरे ही वे उसमें सम्मिलित हुए और कतिपय महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उनका सदैव मतभेद बना रहा। यशपाल अपने कथा-साहित्य के लिए सामग्री अपने विशद जीवनानुभव से लेते रहे हैं। उनकी प्रेरणा का स्रोत उन्हें घेरे रहने वाली परिस्थितियाँ, व्यवस्था, आचार-व्यवहार और अन्तर्विरोध रहे हैं। यथार्थ जीवन से पृथक् होकर विचारों की कल्पना कर सकना उनके लिये असम्भव रहा है। सामयिक प्रश्नों का समाधान उन्होंने मार्क्सवाद में पाया है। इसीलिए उनके उपन्यासों में विचार-विश्लेषण और मार्क्सवादी सिद्धान्तों का प्रत्यक्ष आरोपण हुआ है। उनके समाधान भी सरलीकृत एवं अव्यावहारिक लगते हैं। उनके उपन्यासों में कतिपय ट्रिट्याँ-यौन-स्वच्छंदता, मनोविज्ञान की क्षीणता, वर्ग-स्थिति की यथार्थ प्रतीति का अभाव और वैयक्तिक प्रेम की अनन्यता का अभाव आदि-पायी जाती हैं। उनकी राजनीतिक निष्ठा उनके सूजन की शक्ति भी है और उसकी सीमा भी। अपने सूजन-कर्म के संबंध में जो-कुछ यशपाल ने स्वयं लिखा है, वह उनके कृतित्व को समझने में पर्याप्त सहायक होगा, "मैं सर्वसाधारण जनता को शोषित और अन्याय-पीड़ित समझता हूँ। इस अन्याय से जनता की मुक्ति का उपाय कम्युनिज्म की द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विचारधारा को मानता हूँ। इस विचारधारा से मेरा सम्पर्क है। जनता में इस विचारधारा का स्पष्टीकरण और प्रचार मेरा देय है।" उन्होंने अपने साहित्य में परम्परागत मान्यताओं और वर्गवादी दर्शन से टक्कर ली है और उन मतों, परम्पराओं, विचारों और सत्यों पर प्रहार किया है, जो शोषक-वर्ग ने अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए समाज में प्रतिष्ठित कर रखे हैं।

यशपाल की दृष्टि में कलाकृति का महत्व उसमें मूर्त सामाजिक संबंधों का है, क्योंकि वह साहित्य को पूर्ण रूप से भौतिकवादी मानते हैं। उनके मत में कला का उद्देश्य जीवन में पूर्णता की प्राप्ति है। "कला का उद्देश्य—जीवन में पूर्णता का प्रयत्न।.....क्या यह अधिक अच्छा नहीं है कि वह विकास और नवीन कला के लिए आधार प्रस्तुत करे?" वह साहित्यकार को अपने युग का सृष्टा मानते हैं, जो युग की सामयिक परिस्थितियों से विमुख होकर अंतर्लोक में विहार नहीं कर सकता। "साहित्य समाज की वस्तु है और साहित्य के हितकर होने का अर्थ है कि वह समाज के लिए हितकर हो।" इसीलिए वह अपनी ऐतिहासिक रचनाओं में इतिहास के यथार्थ का नहीं, उसमें उपलब्ध आर्थिक-सामाजिक संबंधों का अन्वेषण करते हैं और यह सिद्ध

करने का प्रयास करते हैं कि हमारा अतीत भी हमारे वर्तमान की भाँति वर्ग-मान्यताओं में आबद्ध था। उनकी ऐतिहासिक कृतियाँ वर्तमान के विश्लेषण से ही उद्भूत हैं। वह अपने उपन्यास की रचना किसी विचार-विशेष के प्रचार-प्रसार के लिए करते हैं। वह स्वयं लिखते हैं, "मैं अनुभव करता हूँ कि अमुक प्रश्न उठाया जाना चाहिए अथवा अमुक समस्या की ओर ध्यान देना आवश्यक है अथवा अमुक समस्या का मेरे विचार से यह उत्तर होना चाहिए और मैं अपने साथियों, अपने समाज को यह बात सुनाने या सुझाने की आवश्यकता अनुभव करता हूँ, तो लिखना जरूरी हो जाता है।" इस विचार को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए वह कथानक का गठन और फिर पात्रों की सृष्टि करते हैं, "पहले विषय चुनता हूँ और विषय के अनुरूप कथानक और कथा की घटनाओं के अनुरूप पात्रों की कल्पना करता हूँ।" उनके पात्र और उनका परिवेश स्वानुभव से चुने जाते हैं। अतः उनमें यथार्थोन्मुखता होती है। इतना ही नहीं, वह कथानक, पात्र एवं परिवेश को प्रामाणिक बनाने के लिए यथेष्ट श्रम करते हैं। 'दिव्या' की रचना से पूर्व उन्होंने प्राचीन परिवेश, बौद्ध जीवन-पद्धति एवं युगीन आचार-व्यवहार के आकलन के लिए बहुत अध्यवसाय किया था। उन्होंने स्वयं इस संबंध में लिखा है, "'दिव्या' और 'देशद्रोही' में जिन परिस्थितियों का चित्रण है, वे इतिहास की पुस्तकों, एन्साइक्लोपीडिया तथा पठानों से बातचीत करके ही मैंने दी है।"

यशपाल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यिकर हैं। उनके साहित्यिक कृतित्व के अन्तर्गत उपन्यास, कहानियाँ, यात्रा-वर्णन, नाटक, राजनीतिक निबन्ध तो आते ही हैं; उन्होंने देश की मुक्ति के लिए सशस्त्र क्रांति के आंदोलन की कहानी भी 'सिंहावलोकन' नाम से आप-बीती रूप में लिखी है। इस प्रकार उनका कृतित्व महान है। अभिनन्दन ग्रन्थ के द्वारा तो वे सम्मानित किये ही गये हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब सरकार ने उन्हें कई बार पुरस्कृत किया है। साहित्य अकादमी ने उन्हें उनकी पुस्तक 'मेरी, तेरी, अपनी बात' पर अकादमी पुरस्कार प्रदान किया था।

यशपाल देश में नहीं, विदेशों में भी सम्मान प्राप्त लेखक हैं। उनकी अनेक रचनाओं का देशी तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। आपकी कहानियों के रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और चैक भाषाओं के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। मलयालम, मराठी, गुजराती, तमिल और तेलगु में भी उनकी कृतियों के रूपान्तर हुए हैं। 'झूठा सच' का रूसी भाषा में अनुवाद हुआ है। उसकी भूमिका में श्री चेलीशेव ने उसकी तुलना रूसी उपन्यासकार शोलोखोव के 'Quiet Flows the Donn' से की है और 'झूठा सच' को 'सोशलिस्ट रियलिज्म' का जीवन्त उदाहरण कहा है। इस प्रकार उनका यश भारत की सीमाओं को लाँच कर विदेशों में भी पहुँच गया है।

4 / NEERAJ : हिन्दी उपन्यास-2

यशपाल ने हिन्दी साहित्य को एक नई दिशा दी; यद्यपि कहीं-कहीं गाँधीवादी आदर्शों की कटु आलोचना और मार्क्सवादी सिद्धांतों का विश्लेषण अखरता है, तथापि हिन्दी उपन्यास को विद्रोह, क्रांतिकारी स्वर देने का श्रेय यशपाल को ही है। उनके उपन्यासों में राजनीति का स्वर मुख्य है। यशपाल का साहित्य पेट और रोटी के प्रश्न पर आधारित है। वह व्यभिचार के लिए भी आर्थिक व्यवस्था को उत्तरदायी मानते हैं। अतः मार्क्सवाद, क्रांति और विद्रोह उनके उपन्यासों के प्रमुख स्वर हैं। कहीं-कहीं अश्लीलता को स्पर्श करता हुआ रोमांस भी उनके उपन्यासों में मिलता है। पर जो-कुछ उन्होंने लिखा है, वह जीवन के अनुभूत तथ्यों, निराशा और असफलताओं का प्रतिफल है, स्वानुभव पर आधारित है, अतः उसमें सच्चाई, ईमानदारी और आक्रोश की तीव्रता है। यदि कोई बात खटकती है तो यही कि पूर्वाग्रह और सिद्धान्तवाद के कारण कला को आधात पहुँचा है, इसीलिए डॉ. वाजपेयी ने शंका व्यक्त की थी, “सिद्धांतों के गमले में रखे, चौबीस घण्टे की छाया में पले ये पौधे कहाँ तक बढ़ पाएँगे?” पर ‘झूठा सच’ को देखकर आशा होती है कि यशपाल अब पुरानी भूमि को त्याग कर विशुद्ध साहित्यकार की पट-भूमि पर पदार्पण कर रहे हैं। कुल मिलाकर उनकी कृतियों में समस्याओं का चित्रण, शोषण और उत्पीड़न का हृदयद्रावक दर्द और चिन्तनजन्य गंभीरता मिलती है। उन्होंने अपनी कृतियों में आदर्श की ज्योत्स्ना नहीं, क्रांति की मशाल जलायी है। अतः उन्हें प्रेमचंद की परम्परा से जोड़ना ठीक नहीं है। यशपाल प्रेमचंद की तरह समझौतावादी न होकर पाठकों को अपनी मान्यताओं से झुकाना चाहते हैं। उनकी रचनाओं में क्रांति और विद्रोह की धृथकती आग है, समझौते की भीख नहीं। पर जन-साधारण के लिए हिन्दी-कथा-साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वह प्रेमचंद के बाद के कथाकार हैं। शातिप्रिय द्विवेदी ने कहा है, “भाषा और शैली की दृष्टि से……प्रेमचन्द ही नये युग में नया शारीर धारण करके पुनः सजीव हो उठे हॉं। यशपाल……प्रेमचन्द की तिरोहित प्रतिभा की तरुण शक्ति हैं।” डॉ. नगेन्द्र का कथन है, “समाज के वैष्णव्य पर प्रहार करते समय यशपाल का प्रखर व्यांग्य अभिव्यक्ति का मेरुदण्ड बन जाता है। धर्म और नीति के रूढिग्रस्त जर्जर खंडहरों को धाराशायी कर समाजवादी अर्थव्यवस्था की नींव पर नव-निर्माण का आग्रह यशपाल की लेखन कला का अंग बन गया है।”

प्रश्न 2. यशपाल के उपन्यास-साहित्य का परिचय देते हुए उनकी उपन्यास-कला की समीक्षा कीजिए।

उत्तर-वर्ण्य-विषय के आधार पर उपन्यासों का विभाजन अनेक वर्गों में किया जा सकता है, यथा-सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक आदि। यशपाल का आत्यन्तिक रूप से वर्गीकरण तनिक कठिन है। उनके उपन्यास न तो शुद्ध रूप

से राजनीतिक हैं, न सामाजिक और न ऐतिहासिक, फिर भी जिस उपन्यास में जिस स्वर की प्रधानता है, उसी के आधार पर उसे राजनीतिक, सामाजिक अथवा ऐतिहासिक कहा जा सकता है। यशपाल के अधिकांश उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं का चित्रण होते हुए भी राजनीति का स्वर प्रधान है। उनमें देश की राजनीतिक समस्याओं, नीतियों, आन्दोलनों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। कथानक राजनीतिक घटनाओं से संबंधित है, तो पात्र राजनीति में सक्रिय भाग लेने वाले और विशिष्ट राजनीतिक मत के मानने वाले पुरुष और स्त्री हैं। उनका उद्देश्य भी किसी राजनीतिक सिद्धांत का प्रचार करना है, अतः उन्हें राजनीतिक उपन्यास ही कहा जाएगा। इन राजनीतिक उपन्यासों में प्रमुख हैं—(1) दादा कामरेड, (2) देशद्रोही, (3) पार्टी कामरेड, (4) झूठा सच।

दादा कामरेड—1941ई. में प्रकाशित इस घटना प्रधान राजनीतिक उपन्यास का संबंध देश की 1930 के आस-पास की राजनीतिक गतिविधियों और घटनाओं से है। उस समय देश का मजदूर वर्ग अपने विकास की प्रारम्भिक स्थिति में था और उनका संघर्ष बार-बार पराजित हो रहा था। उपन्यास का आरम्भ क्रांतिकारी हरीश के जीवन की एक अन्धकारपूर्ण रात से होता है, जब वह भागता हुआ एक मध्यवर्गीय परिवार की महिला यशोदा के यहाँ आश्रय लेता है। प्रातः होते ही वह यशोदा से विदा लेकर अपनी परिचिता शैलबाला के यहाँ पहुँच जाता है। शैल से घनिष्ठता के कारण उस पर लाँचन लगाकर उसे पार्टी से पृथक् करने की योजना बनाई जाती है। दादा और पार्टी के कुछ सदस्य उसे गोली मारकर समाप्त कर देना चाहते हैं। जब शैल को पता लगता है, तो वह हरीश को लेकर मसूरी चली जाती है, जहाँ वह मिराजकर नाम से रहने लगता है। यहीं उसका नैसी से परिचय होता है। मृत्यु के मुख में फंसकर हरीश शैल को निरावरण देखने की इच्छा प्रकट करता है और शैल उसकी इच्छा तृप्त करती है। वह गर्भवती हो जाती है। शैल की प्रेरणा से काँग्रेसी पति रूढिवादी अमरनाथ की पत्नी पार्टी के कार्यों में सहयोग देने लगती है। हरीश मजदूर सभा का मंत्री बन जाता है, मजदूरों को उत्तेजित करके हड़तालें करवाता है। पार्टी उसके कार्यों से प्रभावित होती है, विशेषतः दादा। वह उसकी सहायता करते हैं। दादा पार्टी के साथ बैंक में डकैती करते हैं और उस रूपये से हरीश की सहायता करते हैं। मजदूरों की मांग स्वीकार हो जाती है। हरीश सफल हो जाता है। पर चोरी का रूपया उपयोग में लाने के अभियोग में उसे प्राणदण्ड मिलता है। गर्भवती शैल की स्थिति दयनीय हो उठती है, पिता क्रुद्ध होते हैं, पर वह अपना अस्तित्व बनाए रखती है। नाटकीय गति से उपन्यास का अन्त होता है, जब दादा आकर शैल का हाथ थाम लेते हैं और शैल हरीश की ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखने के लिए दादा के साथ प्रस्थान कर जाती है।